

प्रेस नोट थाना खजनी दिनांक 30.03.2021

हत्या के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी खजनी द्वारा थाना खजनी जनपद गोरखपुर के ग्राम भीटी खोरिया में दिनांक 30.03.2021 को गांव के ही एक युवक उमेश पाण्डेय के मृत अवस्था में पाये जाने की सूचना थाना खजनी पर प्राप्त हुई थी जिसके सम्बन्ध में थाना खजनी पर मु0अ0सं0 85/21 अंतर्गत धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना ग्राम भीटी खोरिया के ही एक अन्य युवक विपिन पाण्डेय पुत्र रामनवल पाण्डेय का नाम प्रकाश में आया। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि मृतक उमेश पाण्डेय व विपिन पाण्डेय के परिवार के बीच बहुत पहले जमीन के हिस्सा बांट को लेकर कशीदगी थी किन्तु वर्तमान में दोनों परिवार के लोगो का एक दूसरे के यहां आना- जाना, उठना-बैठना, खाना -पीना हो गया था। ग्रामवासियों के अनुसार होली के दिन मृतक उमेश पाण्डेय व अभियुक्त विपिन पाण्डेय दोनों एक साथ होली खेले तथा शराब पिये शाम को एक दुकान से गुटका लिये तथा शराब की बोतल के साथ खेत की ओर चले गये। अंधेरा होने पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर शराब पीते लोगो ने देखा था अगले दिन पेड़ से 15-20 कदम की दूरी पर गेंहू के खेत में उमेश पाण्डेय की लाश मिली थी। विवेचना से गांव के ही विपिन पाण्डेय द्वारा उमेश पाण्डेय की हत्या करने की पुष्टि हुई। अभियुक्त विपिन पाण्डेय की गिरफ्तारी कर उससे पूछ ताछ की गयी तो उसने होली के दिन का पूरा घटना क्रम बताते हुए अंत में रात्रि के समय गेंहू के खेत में शराब पीने के बाद नशे में कहा सुनी होने पर खेत में पड़े लकड़ी के एक डण्डे से उमेश पाण्डेय के सिर पर वार करना और उमेश पाण्डेय के बेहोश हो जाने पर वहां से भाग जाना स्वीकार किया। अगले दिन उमेश की लाश की जानकारी गांव वालों को हो जाने के बाद घर से गायब हो जाना भी स्वीकार किया।

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

दिनांक- 07.04.2021 को प्रातः 08.45 बजे डोमर घाट रोड बाबा की कुटिया के पास

गिरफ्तार किया गया अभियुक्त-

विपिन पाण्डेय पुत्र रामनवल पाण्डेय निवासी भीटी खोरिया थाना खजनी जनपद गोरखपुर।

आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0- 77/2017 धारा 302 भादवि थाना सहनेवाल लुधियाना पंजाब
- 2.मु0अ0सं-85/21 धारा 302 भादवि थाना खजनी जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी व कर्मचारीगण-

- 1.थानाध्यक्ष- मृत्युंजय राय
- 2.का0 अजय सिंह
- 3.का0 गौतम जैसवार